



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1982/पौष 11, 1903
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1982/PAUSA 11, 1903

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 1ई०टी०सी० (पी एन)/82

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1982

विषय : खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन परिधान उत्पादों में भिन्न वस्त्र उत्पादों का निर्यात।

मि० सं० 2/54/81-ई० 1.---उपर्युक्त विषय पर निर्यात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना सं० 85-ईटीसी (पी एन)/81, दिनांक 23-12-1981 और निर्यात (निर्यंत्रण) आदेश सं० ई (सी) ग्री, 1977 (230), दिनांक 1 जनवरी, 1982 की ओर ध्यान दिया जाता है।

2. सार्वजनिक सूचना सं० 85-ईटीसी (पी एन)/81, दिनांक 23-12-81 के अनुसार सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिपद् 1 जनवरी, 1982 में विश्वीय आधार पर परिधान उत्पादों में भिन्न सभी प्रकार के वस्त्र उत्पाद अर्थात् कोटे से भिन्न मदे जो कोटा देशों को निर्यात की जाती है और वे सभी मदे जो कोटे में भिन्न देशों को निर्यात की जाती है के निर्यात से संबद्ध आंकड़े

संकलन करने का काम संभाल लेगी। तदनुसार, अप्रैल 1981—मार्च 1982 की निर्यात नीति के पृष्ठ सं० 23 पर क्रम सं० 70(14) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :-

1	2	3
"70(15)	पश्चिमान उत्पादों से भिन्न सभी प्रकार के वस्त्र उत्पाद अर्थात् कोटे से भिन्न मदें जो कोटा देशों की निर्यात की जाती हैं और वे सभी मदें जो कोटे से भिन्न देशों की निर्यात की जाती हैं।	निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लारसेंस 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।"

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
प्राधान्य निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 1-ETC(PN)/82

New Delhi, the 1st January, 1982

Sub: Export of Textile Products other than apparel products under OGL 3.

File No. 2/54/81-EI.—Attention is invited to Export Trade Control Public Notice No. 85-ETC(PN)/81 dated 23-12-1981 and the Exports (Control) Order No. ETC(O), 1977/AM(230), dated the 1st January, 1982, on the above subject.

2. In terms of Public Notice No. 85-ETC(PN)/81 dated 23-12-1981, the Cotton Textiles Export Promotion Council will take over, with effect from 1st January, 1982, the work of collection of statistics of exports of textile products, all types namely, non-quota items exported to quota countries and all items exported to non-quota countries other than apparel products, on a global basis. Accordingly, the following entry shall be added after S.No. 70(xiv), on page 23 of Export Policy April, 1981—March, 1982:—

1	2	3
"70(xv)	Textile Products, all types viz. non-quota items exported to quota countries and all items exported to non-quota countries, other than apparel products.	Export will be allowed as provided under OGL 3"

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller
of Imports & Exports